

यूक्रेन संकट पर भारत का रुख

यह एडिटरियल 08/04/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Ukraine and the anatomy of India's neutrality" लेख पर आधारित है। इसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और मामले पर भारत के रुख के संबंध में चर्चा की गई है।

अंतरराष्ट्रीय युद्ध संकटों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता के समय से ही कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। भारत का रुख हमेशा से सोवियत संघ समर्थक और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस समर्थक रहा है।

अतीत में अंतरराष्ट्रीय संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया

- वर्ष 1956 में हंगरी की क्रांति के समय वहाँ तैनात सोवियत सैन्य बलों ने हस्तक्षेप जारी रखा लेकिन भारत ने इसकी नदि नहीं की।
- हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के एक वर्ष बाद वर्ष 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत द्वारा नदि नहीं कथि जाने का बचाव करते हुए संसद में कहा कि "दुनिया में साल-दर-साल और दनि-ब-दनि बहुत-सी चीज़ें घटती होती रही हैं, जनिहें हमने बेहद नापसंद कथि है। हमने उनकी नदि इसलथि नहीं की कथोकजिब कोई कसिी समस्या को हल करने की कोशशि कर रहा होता है तब उसे भला-बुरा कहने और नदि करने से कोई मदद नहीं मलती।"
- जवाहरलाल नेहरू का यह स्वयंसदिध भवषिय के संघर्षों (वशिष रूप से जहाँ उसके सहयोगी देश संलग्न थे) के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शक बना रहा। चाहे वह सोवियत संघ का हंगरी (1956), चेकोस्लोवाकथि (1968) या अफगानसि्तान (1979) में हस्तक्षेप हो या इराक पर अमेरकी आक्रमण (2003), भारत ने कमोबेश इसी दृष्टिकोण का अनुसरण कथि।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर भारत की प्रतिक्रिया—जहाँ उसने कसिी पक्ष को बना भला-बुरा कहे नागरकीों की हत्या की नदि की और संयुक्त राष्ट्र मतदान से अनुपस्थति रहा, इसी ऐतहिसकि रूप से सतर्क तटस्थता की नीति से मौलकि रूप से अलग नहीं रही है।
 - भारत अमेरकी द्वारा प्रायोजति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के उस प्रस्ताव से भी दूर रहा जसिमें यूक्रेन के वरिद्ध रूस की आक्रामकता की कड़ी नदि की गई थी।
 - भारत यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की नदि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प से भी अलग रहा।
 - भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रस्ताव से भी अलग रहा जो यूक्रेन में चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेर्नोबलि सहति विभिनिन परमाणु अपशषिट स्थलों की सुरक्षा से संबंधति था।
- यूक्रेन संकट पर भारत का रुख वशिष में कोई एकाकी रुख नहीं है।
 - एक अन्य प्रमुख लोकतंत्र दक्षिण अफरीका भी रूस की नदि करने वाले संयुक्त राष्ट्र मतदान से अलग रहा।
 - संयुक्त अरब अमीरात (जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरकी का निकट सहयोगी है और हज़ारों अमेरकी सैनकीों की मेजबानी करता है) भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले पर आहत मतदान से अलग रहा।
 - पश्चिमी एशथि में अमेरकी के सबसे घनषिट सहयोगी इज़राइल ने रूसी हमले की नदि तो की, लेकिन प्रतिबंधि व्यवस्था में शामिल होने से इनकार कर दथि और यूक्रेन को अपनी रक्षा प्रणाली भेजने से भी मना कर दथि।
 - उत्तरी अटलांटिकि संघ (नाटो) के सदस्य तुर्की ने भी ऐसा ही कथि और यूक्रेन एवं रूस के बीच मध्यस्थता के लथि आगे बढ़ा।
 - लेकनि इनमें से कोई भी देश पश्चिमी के उस तरह के दबाव और सार्वजनकि आलोचना के दायरे में नहीं आया जैसा भारत के साथ हुआ।
 - अमेरकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की स्थति को 'कुछ हद तक अस्थरि' बताया। बाइडेन प्रशासन में 'अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' ने अमेरकी प्रतिबंधों को दरकनार करते हुए रूस के साथ व्यापार करने की स्थति में भारत को 'परिणाम' भुगतने की चेतावनी दी।

पश्चिमी देशों द्वारा भारत को चुनदि रूप से लक्षति कथि कथि जा रहा है?

- इसके तीन व्यापक राजनीतिक, आर्थकि और रणनीतिक कारण हो सकते हैं।
- राजनीतिक दृष्टिकोण से, पश्चिमी ने सावधानीपूर्वक इस आख्यान के नरिमाण की कोशशि की है कि यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति विलादमीर पुतनि का हमला 'फ्री वर्ल्ड' पर हमला है।

- यदि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत रूसियों को दंडित करने के पश्चिमी नेतृत्व वाले इस दौरे से बाहर रहता है तो उनका यह आख्यान कमज़ोर नज़र आएगा।
- आर्थिक दृष्टिकोण से, रूस पर प्रतर्बिंध मुख्यतः पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए हैं। केवल तीन एशियाई देशों—जापान, दक्षिण कोरिया और संगापुर ने ही इसका समर्थन किया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने अमेरिकी प्रतर्बिंधों का पालन नहीं किया है।
 - यदि भारत भी भुगतान प्रतर्बिंधों के संबंध में कोई रास्ता निकालकर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखता है तो यह नश्चित रूप से रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रतर्बिंधों के प्रभाव को मंद कर देगा।
- रणनीतिक रूप से, यह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संकट है। भारत ने पिछले 30 वर्षों में अमेरिका के साथ और सामान्य रूप से पश्चिम के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की है, जबकि रूस के साथ भी उसका मधुर संबंध बना रहा है।
 - इस संतुलन को हाल के अतीत में किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस एवं पश्चिम के बीच संबंधों के लगभग पूरी तरह वखंडन बाद अब भारत जैसे देशों को कोई एक पक्ष चुनने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
 - अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में रूपांतरण के साथ (जहाँ अमेरिका भारत को हृदि-प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिये एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में भी देखता है) उम्मीद थी कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता छोड़ देगा और पश्चिम के साथ संरक्षित रुख अपनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

यूक्रेन की त्रासदी के लिये पश्चिम कैसे ज़िम्मेदार है?

- यूक्रेन संकट में पश्चिम एक नरिदोष दर्शक भर नहीं है। वर्ष 2008 में यूक्रेन को नाटो सदस्यता का वादा किया गया था जो उसे नहीं मिला। लेकिन यह वादा भर रूस के सुरक्षा समीकरण को आशंकित कर देने के लिये पर्याप्त था और वह आक्रामक रूप से आगे बढ़ा। उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और डोनबास में उग्रवाद को समर्थन देने लगा।
- अमेरिका ने यूक्रेन को धन और सीमाति मात्रा में हथियार देना तो जारी रखा लेकिन रूस के वरिद्ध यूक्रेन के प्रतर्बिंध को सशक्त कर सकने के लिये कोई सार्थक कदम नहीं उठाया।
- इस प्रकार, पश्चिम न केवल रूस को रोकने में वफिल रहा बल्कि युद्ध के प्रतर्बिंध की सीमाति प्रतर्बिंधियाँ रूस को चीन से बेहतर संबंध बनाने की ओर प्रेरित कर रही हैं।
- भारत के पास दो ही विकल्प थे। वह रूस वरिधी पश्चिमी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए चीन से रूस की नकिटता की गति को और प्रश्रय देता अथवा मास्को के साथ संलग्नता की अपनी शर्तों को बनाए रखते हुए रूस को अपने एशियाई संबंधों में वविधिता लाने का अवसर देता। नश्चय ही फरि भारत ने दूसरा विकल्प चुनना उपयुक्त समझा।

आगे की राह

- **हथियारों के मामले में आत्मनरिभरता:** चीनी वसितारवाद, सीमाओं पर दुस्साहसिक चुनौती और अफगानसितान से अमेरिकी सैन्य बल की अचानक वापसी के परदृश्य में भारत को एशिया में चीन के रणनीतिक एवं भू-आर्थिक खतरे से नपिटने के लिये अमेरिका और रूस दोनों की आवश्यकता है।
 - हालाँकि, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि जब दो प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो उन्हें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होती है। इसलिये आत्मनरिभरता बेहद महत्वपूर्ण है।
 - भारत जब हथियारों के मामले में वास्तविक 'आत्मनरिभरता' प्राप्त करेगा, तभी वह दुनिया का बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम होगा।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** यदि एशिया में सथल क्षेत्र पर भारत-रूस साझेदारी महत्वपूर्ण है तो हृदि महासागर क्षेत्र में चीनी समुद्री वसितारवाद का मुकाबला करने के लिये 'क्वाड' अनविर्य है।
 - चीन का मुकाबला कर सकने की अनविर्यता भारतीय वदिश नीति की आधारशला बनी हुई है और यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर दल्लि के रुख से लेकर हर बात तक भारत की स्थिति इसी अनविर्यता से प्रेरित है।
- **भारत में पश्चिम के हतियों को समझना:** भारत के वदिश नीति के भीतर इस बात पर बहस चल रही है कि भारत अपनी तटस्थता से कसि लाभ-हानि की स्थिति में रहेगा और पश्चिम का साथ देने पर क्या परिणाम सामने आ सकते हैं।
 - इसके अतरिकित, यह सौच भी मौजूद है कि पश्चिम इस समय भारत से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे भारत के बाज़ारों की और एक लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति की ज़रूरत है क्योंकि वह चीन को नरितरति करने के लिये भागीदारों की तलाश कर रहा है।

नश्कर्ष

- भारत कसि प्रमुख शक्ति का 'क्लाइंट स्टेट' नहीं है। वसतुस्थिति यह है कि क्लाइंट स्टेट भी पश्चिम की प्रतर्बिंध व्यवस्था में शामिल नहीं हुए। भारत कसि गठबंधन प्रणाली का सदस्य भी नहीं है; क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका) कोई गठबंधन नहीं है।
- कसि भी अन्य देश की तरह भारत भी व्यावहारिक यथार्थवाद और अपने मूल राष्ट्रिय हतियों के आधार पर अपनी नीतियाँ अपनाने का अधिकार रखता है। भारत का रुख यह है कि रणनीतिक स्वायत्तता में अवलंबित एक तटस्थ स्थिति जो दोनों पक्षों के साथ चैनलों को खुला रखती है, उसके हतियों की पूर्ति के लिये अनुकूल है।
- इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत युद्ध का समर्थन करता है। इसने ऐसा किया भी नहीं है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार अमेरिका इन सूक्ष्म भेदों को नहीं समझता या समझने की इच्छा नहीं रखता।

अभ्यास प्रश्न: कसि भी अन्य देश की तरह भारत भी व्यावहारिक यथार्थवाद और अपने मूल राष्ट्रिय हतियों के आधार पर अपनी नीतियाँ अपनाने का अधिकार रखता है। हाल के रूस-यूक्रेन युद्ध के आलोक में इस कथन की चर्चा कीजिये।

